

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

पत्र संख्या 348/2020

दिनांक 22.12.21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,  
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय:-

शीर्ष - State Scheme-NABARD Fund योजनान्तर्गत अधियाचना समर्पित करने  
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष State Scheme-NABARD Fund  
योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य में भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।  
इस पत्र के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचित राशि समर्पित की जा रही है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजक

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल हरनौत।

**Rural Works Department**  
**NABARD Allotment Requisition Format**

Name of Circle: **NALANDA**

Name of Division: **Harnaut**

Scheme Head: **NABARD**

Sl No	Year	Name of Scheme	Name of Contractor	Administrative Section		Agreement amount (in Lakhs)		Allotment Received (in Lakhs)	Total Expenditure as per MIS (in Lakhs)	Value of Measurement (in Lakhs)	Current Demand (in Lakhs)	Remarks
				Length (km) / Bridge (mtr)	Amounts (in Lakhs)	Main Works	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2018-19	Chero Ukha PMGSY Rd Ukha to Shepur Bigha	Shubou Singh	1.530	82.68800	72.73724	14.14267	68.22717	67.86161	68.85908	0.63191	
<b>Total ---</b>											<b>0.63191</b>	

**28.02.23**  
Assistant Account Manager  
RWD, Works Division, Harnaut

**28/02/23**  
Divisional Account Officer  
RWD, Works Division, Harnaut

**28.11.2023**  
Executive Engineer  
RWD, Works Division, Harnaut

**FORM GFR 19-A**  
(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)  
**Form of Utilization Certificate of NABARD- Programme Fund**  
As on Dated - 28.02.23

PIU- Harnaut		F.Yr.-- 2022-23		Rs. In Lakhs	
Name of Scheme	Sl. No.	Sanction No. & Date		Amount Received (in Rs. Lakhs)	Particulars
Construction of Rural Roads under NABARD- Programme Fund	2	Total Allotment- (CFMS)	31.03.2022	₹ 16,14087	Certified that out of ₹ 228.55800 Lakhs received & balance of grants-in-aid sanctioned during the Financial Yr. 2022-23 in favour of Excutive Engg. R.W.D. Works Division Harnaut, Nalanda, a sum of ₹ 218.30071 Lakhs has been utilized for the purpose of NABARD scheme as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of ₹ 10.25729 Lakhs remaining unutilized at the end of the period under 26th August 2022
		Add.F.Y.	2022-23	₹ 212.41713	
		Total		₹ 228.55800	
		Total-----		Rs. ₹ 228.55800	

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

**Kind of Checks exercised :-**

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.

**3 Physical Progress achieved:**

- Construction of Road Works.

*BB*

28.02.23

*[Signature]*  
Sr. Dist. Asst. Officer  
RWD (Works Division), Harnaut

*[Signature]*  
Executive Engineer  
RWD (Works Division), Harnaut



Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

4th and final bill

① Name of work:- Construction and five year maintenance of Road from chero ukhara pmhsy Road to Sharpur bigha Tak

2) Agency:- Shikhu Singh

(-) Agreement No-1/SBD/19-20

⑤ Date of Agreement-28/6/19

Date of entry-20/8/22

Items

① Plastering with C.M

(1:4) — do — E/F

$$2 \times 2 \times 6.20 \times 0.40 = 9.92 \text{ m}^2$$

$$2 \times 2 \times 6.20 \times 2.40 = 59.52 \text{ m}^2$$

$$2 \times 2 \times 0.8 \times 2.40 = 7.68 \text{ m}^2$$

$$3 \times 2 \times 3.70 \times 0.40 = 8.88 \text{ m}^2$$

$$3 \times 2 \times 3.70 \times 2.40 = 44.40 \text{ m}^2$$

$$3 \times 2 \times 3.40 \times 2.40 = 4.80 \text{ m}^2$$

$$135.19 \text{ m}^2$$

$$\text{Unit} = 125.34 \text{ m}^2$$

② Painting on concrete/

Steel Surface — do

$$\text{Area vide Item ①} = 125.34 \text{ m}^2$$

③ Road Marking — do

$$3 \times 30.00 \times 0.10 = 18.00 \text{ m}^2$$

④ Construction of subgrade

— do — G.O.

$$3 \times 30.00 \times 2.75 \times 0.20 = 27.00 \text{ m}^3$$

